



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन 1937 (श10)

(सं० पटना 1201) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अक्टूबर 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना

3 सितम्बर 2015

सं० 1766—श्री हरषू ब्रह्म स्थान न्यास, चैनपुर, जिला—कैमुर (भभुआ) पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं० 3401 है। यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थान है, जहां सालों भर भक्तों की भीड़ होती है, और दान—चढ़ावा से पर्याप्त आय है। इसकी सुव्यवस्था तथा विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक—1591 दिनांक 26/09/2008 द्वारा अधिनियम की धारा—32 के तहत एक न्यास समिति का गठन 05 वर्षों के लिए किया गया था। उक्त समिति का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस न्यास की व्यवस्था हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ ने अपने पत्रांक—726/गो०, दिनांक 24/08/2015 के माध्यम से ग्यारह सदस्यीय नामों की अनुशंसा की है। साथ ही श्री कैलाशपति त्रिपाठी ने भी ग्यारह सदस्यों के नामों की प्रस्तावना दी है।

चूंकि न्यास समिति के कार्यकाल का अवसान हो चुका है, और नयी न्यास समिति का गठन आवश्यक है। अतः न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा, सुव्यवस्था एवं सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा—32 के तहत एक योजना का निरूपण एवं उसे मूर्त रूप देने तथा संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन आवश्यक है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—32 के अन्तर्गत धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं०— 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए हरषू ब्रह्म स्थान न्यास, चैनपुर के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का पुर्नगठन किया जाता है।

#### योजना

1. अधिनियम की धारा— 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री हरषू ब्रह्म स्थान न्यास योजना, चैनपुर, जिला— कैमुर (भभुआ)” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री हरषू ब्रह्म स्थान न्यास समिति, चैनपुर, जिला— कैमुर (भभुआ)” जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
3. न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मन्दिर की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा विकास करना होगा।
4. न्यास समिति न्यास की परम्परा के अनुसार धार्मिक आचारों का पालन सुनिश्चित करेगी।

5. न्यास में प्राप्त होनेवाली समग्र आय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा की जायेगी। बैंक खाता का संचालन सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। व्यय के अनुसार राशि निकालकर काम किया जायेगा।

6. न्यास के लेखा का संधारण सत्यापित पंजी में होगा। आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति का प्रमुख दायित्व होगा जिससे कि समिति का कार्य परिलक्षित हो सके और जनता का विश्वास बना रहे।

7. न्यास समिति के सचिव द्वारा बैठकों की कार्यवाही पुस्तिका संधारित की जायेगी तथा कोषाध्यक्ष न्यास के लेखा के संधारण के लिए उत्तरदायी होंगे।

8. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, बजट, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक् रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

9. कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझे जाने पर, इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद की अनुमोदन के लिए भेजेगी।

10. न्यास समिति का कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यदि न्यास से लाभ उठाते हुए पाये जायें या आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो न्यास समिति की सदस्य बन रहने की उनकी अहर्ता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

11. न्यास समिति में कोई पद आकस्मिक दुर्घटना, त्याग-पत्र अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर उस पर नियुक्ति पर्षद करेगी।

12. न्यास समिति के कोई सदस्य अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो समिति के अध्यक्ष या सचिव इसकी सूचना पर्षद को देंगे ताकि समुचित कार्रवाई की जा सके।

13. न्यास समिति न्यास के किसी भू-खंड का अन्य संक्रमण या किसी भी तरह का हस्तान्तरण नहीं करेगी।

14. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

15. इस योजना के संचालन एवं कार्यन्वयन के लिए सम्प्रति निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास समिति का सदस्य मनोनित किया जाता है:-

(1) अंचलाधिकारी, चैनपुर, कैमुर	—	पदेन अध्यक्ष
(2) श्री रमेश देव त्रिपाठी पिता- स्व० वासुदेव त्रिपाठी, चैनपुर, कैमुर	—	उपाध्यक्ष
(3) श्री कैलाशपति त्रिपाठी, पिता- श्री राधेश्याम तिवारी, चैनपुर, कैमुर	—	सचिव
(4) श्री बद्रीनाथ शुक्ल पिता- श्री दीनानाथ शुक्ल, चैनपुर, कैमुर	—	कोषाध्यक्ष
(5) थानाध्यक्ष, चैनपुर, कैमुर	—	पदेन सदस्य
(6) श्री दिलीप सिंह पिता- स्व० रामशरण सिंह, चैनपुर, कैमुर, भभुआ	—	सदस्य
(7) श्री संतोष पासवान पिता- श्री लक्ष्मण पासवान, चैनपुर, कैमुर	—	सदस्य
(8) श्री विनोद कुमार त्रिपाठी पिता- श्री राजवंश त्रिपाठी, चैनपुर, कैमुर	—	सदस्य
(9) श्री राजदेव सिंह, सेवानिवृत्त प्र०वि० पदाधिकारी, ग्राम- जगरिया, चैनपुर	—	सदस्य
(10) श्री गायत्री त्रिपाठी पिता- स्व० हरिनन्दन त्रिपाठी, ग्राम- जगरिया, चैनपुर	—	सदस्य
(11) श्री प्रेमचंद द्विवेदी सेवानिवृत्त प्र० कृषि पदा०, चैनपुर, कैमुर	—	सदस्य

16. इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्ष तक लागू रहेगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा एवं कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति भंग की जा सकती है।

आदेश से,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1201-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>